

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 461]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 17 नवम्बर 2016—कार्तिक 26, शक 1938

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर 2016

अधिसूचना क्रमांक 28-एफ-1-14-2016-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, निम्नलिखित नगर परिषदों में उनके नाम के सामने अंकित व्यक्तियों को वर्तमान परिषद् के सहविस्तारी कार्यकाल या राज्य शासन के अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो तक, एल्डरमेन के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है:—

स. क्र.	जिले का नाम	क्र.	नगर परिषद् का नाम	क्र.	नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम, पिता/पति का नाम एवं पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	जिला छिंदवाड़ा	1	न्यूटन चिखली	1	श्री श्रीचंद्र यदुवंशी, श्री शंकरलाल यदुवंशी, वार्ड क्र. 02 न्यूटन चिखली.
				2	श्री जयंत राय, श्री छोटेलाल राय, वार्ड क्र. 10 न्यूटन चिखली.
		2	बड़कुही	1	श्री मुनीराज इंदौरकर, श्री राघव इंदौरकर, वार्ड क्र. 07 बड़कुही.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				2	श्री राजू पवार, श्री यशवंत पवार, वार्ड क्र. 4 बड़कुही.
		3	चांदामेटा	1	श्री राकेश उईके, श्री बसंत उईके, वार्ड क्र. 2 चांदामेटा.
				2	श्री मोतीलाल सातनकर, श्री घूडन सातनकर, वार्ड क्र. 9 चांदामेटा.
		4	हरई	1	श्री द्वारका गुप्ता, श्री होरीलाल गुप्ता, वार्ड क्र. 11 हरई.
				2	श्री नरेन्द्र राय, श्री मिट्टूलाल राय, वार्ड क्र. 6 हरई.
		5	चांद	1	श्री नोखेलाल, श्री हीरालाल श्रीवास, वार्ड क्र. 6 चांद.
				2	श्री कृष्णकुमार चौरसिया, श्री गंगाप्रसाद चौरसिया, चौरसिया वार्ड नं. 11 हरनाखेडा, चांद.
		6	बिछुआ	1	श्री नेमीसिंह, श्री बलवान सिंह रघुवंशी, वार्ड क्र. 7 बिछुआ, जिला छिंदवाड़ा.
				2	श्री भजनलाल गाकरे, श्री गणपत गाकरे, वार्ड नं. 1 बिछुआ.
		7	लोधीखेडा	1	श्री अमरदास लिखारे, श्री मूलचंद लिखारे वार्ड क्र. 14 लोधीखेडा
				2	श्री मेघराज ढोबले, श्री रामभाऊ ढोबले वार्ड क्र. 12 लोधीखेडा.
		8	पिपला नारायणवार	1	श्री विजय दरबारे, श्री ओमकार आप्पा दरबारे वार्ड क्र. 11 पिपला नारायणवार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				2	श्रीमती विनीता उर्फ कुमुद चौधरी, श्री किशोर चौधरी, वार्ड क्र. 10 पिपला नारायणवार.
2	जिला सीधी	1	रामपुर नैकिन	1	श्री मथुरा गुप्ता, श्री जगदीश गुप्ता, वार्ड नं. 11 रामपुर नैकिन.
				2	सुश्री आराधना सिंह, श्री केशव सिंह, ग्राम पो. रामपुर नैकिन.
		2	चुरहट	1	श्री पुरुषोत्तम गुप्ता, श्री जवाहरलाल गुप्ता, ग्राम पो. 11-चुरहट वार्ड नं.
				2	श्री भूपेन्द्र पटेल, श्री सिद्धिमुनी गुप्ता, ग्राम रामनगर पो. 9, चुरहट वार्ड नं.
		3	मझौली	1	श्री रामशखा शर्मा, श्री रामावतार तिवारी, ग्राम पो. मझौली.
				2	श्री भागवत गुप्ता, श्री परमेश्वरदीन गुप्ता, ग्राम पो. मझौली.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल चंद्र डाड, उपसचिव.